



ORIGINAL

क्रम सं/ Serial No.: 183966



पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार

The Patent Office, Government Of India

डिजाइन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

Certificate of Registration of Design

डिजाइन सं. / Design No.

430452-001

तारीख / Date

13/09/2024

पारस्परिकता तारीख / Reciprocity Date*

देश / Country

प्रमाणित किया जाता है कि संलग्न प्रति में वर्णित डिजाइन जो **SOLAR POWERED WATER HYACINTH HARVESTER** से संबंधित है, का पंजीकरण, श्रेणी 15-03 में International Crops Research Institute For The Semi-Arid Tropics ('Icrisat') के नाम में उपर्युक्त संख्या और तारीख में कर लिया गया है।

Certified that the design of which a copy is annexed hereto has been registered as of the number and date given above in class 15-03 in respect of the application of such design to **SOLAR POWERED WATER HYACINTH HARVESTER** in the name of International Crops Research Institute For The Semi-Arid Tropics ('Icrisat').

डिजाइन अधिनियम, 2000 तथा डिजाइन नियम, 2001 के अधधीन प्रावधानों के अनुसरण में।

In pursuance of and subject to the provisions of the Designs Act, 2000 and the Designs Rules, 2001.

जारी करने की तिथि :

Date of Issue

04/11/2024



कुलपति की संज्ञा

महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न
Controller General of Patents, Designs and Trade Marks


*पारस्परिकता तारीख (यदि कोई हो) जिसकी अनुमति दी गई है तथा देश का नाम। डिजाइन का स्वत्वाधिकार पंजीकरण की तारीख से दस वर्षों के लिए होगा जिसका विस्तार, अधिनियम एवं नियम के निबंधनों के अधीन, पाँच वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए किया जा सकेगा। इस प्रमाण पत्र का उपयोग विधिक कार्यवाहियों अथवा विदेश में पंजीकरण प्राप्त करने के लिए नहीं हो सकता है।

The reciprocity date (if any) which has been allowed and the name of the country. Copyright in the design will subsist for ten years from the date of Registration, and may under the terms of the Act and Rules, be extended for a further period of five years. This Certificate is not for use in legal proceedings or for obtaining registration abroad.

REPRESENTATION SHEET

Name of the Applicant: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics ('ICRISAT')

No of sheets:4 Sheet No: 1



FRONT VIEW

The novelty resides in the shape and configuration in the Solar Powered Water Hyacinth Harvester as Illustrated.

No claim made by virtue of this registration in respect of any mechanical or other action of the mechanism whatever or in respect of any mode or principle of construction of the article. No claim is made by virtue of this registration to any right to the exclusive use of colour or colour combination appearing in the design of the article.

No claim is made by virtue of this registration to any right to the exclusive use of trademarks, words or letters and numerals appearing in the design of the article.


Dated on this 13th day of September, 2024

Signature of the Agent

REPRESENTATION SHEET

Name of the Applicant: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics ('ICRISAT')

No of sheets:4 Sheet No: 2



BACK VIEW

The novelty resides in the shape and configuration in the Solar Powered Water Hyacinth Harvester as Illustrated.

No claim made by virtue of this registration in respect of any mechanical or other action of the mechanism whatever or in respect of any mode or principle of construction of the article. No claim is made by virtue of this registration to any right to the exclusive use of colour or colour combination appearing in the design of the article.

No claim is made by virtue of this registration to any right to the exclusive use of trademarks, words or letters and numerals appearing in the design of the article.


Dated on this 13th day of September, 2024

Signature of the Agent

REPRESENTATION SHEET

Name of the Applicant: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics ('ICRISAT')

No of sheets:4 Sheet No:3



TOP VIEW

The novelty resides in the shape and configuration in the Solar Powered Water Hyacinth Harvester as Illustrated.

No claim made by virtue of this registration in respect of any mechanical or other action of the mechanism whatever or in respect of any mode or principle of construction of the article. No claim is made by virtue of this registration to any right to the exclusive use of colour or colour combination appearing in the design of the article.

No claim is made by virtue of this registration to any right to the exclusive use of trademarks, words or letters and numerals appearing in the design of the article.


Dated on this 13th day of September, 2024

Signature of the Agent

REPRESENTATION SHEET

Name of the Applicant: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics ('ICRISAT')

No of sheets:4 Sheet No:4



BOTTOM VIEW

The novelty resides in the shape and configuration in the Solar Powered Water Hyacinth Harvester as Illustrated.

No claim made by virtue of this registration in respect of any mechanical or other action of the mechanism whatever or in respect of any mode or principle of construction of the article. No claim is made by virtue of this registration to any right to the exclusive use of colour or colour combination appearing in the design of the article.

No claim is made by virtue of this registration to any right to the exclusive use of trademarks, words or letters and numerals appearing in the design of the article.

Dated on this 13th day of September, 2024

Signature of the Agent